

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 491] नई दिल्ली, बुध्दिवार, नवम्बर 16, 1972/कार्तिक 25, 1894

No. 491] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 1972/KARTIKA 25, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November 1972

S.O. 711(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the late Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Mines and Metals) No. S.O. 3822, dated the 16th November, 1970, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in lands measuring 295.00 acres (approximately) or 119.48 hectares (approximately) in the locality specified in the Schedule appended hereto;

And whereas in respect of the said lands no notice under sub-section (1) of section 7 of the said Act has been given;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by the said sub-section (1) of section 7, the Central Government hereby specifies a further period of one year commencing from the 16th November, 1972, as the period within which the Central Government may give notice of its intention to acquire the said lands or any rights in or over such lands.

SCHEDULE

Bokaro Block-I (Sawang Extension)
(East Bokaro Coalfield)

Drg. No. Rev/6/70.

Dated 29-4-70

(Showing lands notified for prospecting).

S. No.	Village	Thana	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Sawang	Gumia	107	Hazaribagh		Part
2.	Gobindpur	Nawadih (Berma)	15	do.		„
3.	Armo	do.	11	do.		„
Total Area:				295.00	acres (Approximately)	
Or				119.48	hectares (Approximately)	

Boundary Description:—

A-B—line passes through Kunar River in village Armo and meets at point 'B'.

B-C—line passes along the part common boundary of villages Sasbera and Sawang and meets at point 'C'.

C-D—line passes through village Sawang and meets at point 'D'.

D-E-F-G—lines pass through villages Sawang and Gobindpur and meet at the point 'G'.

G-H-A—lines pass along the left bank of River Kunar in villages Gobindpur and Armo and meet at point 'A'.

[No. C3-1(11)/70-C5.]

A. S. DESHPANDE, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 नवम्बर, 1972

का० आ० 711(अ).—यतः कोयला वाले क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3822 तारीख 16 नवम्बर, 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 295.00 एकड़ (लगभग) या 119.48 हेक्टेयर (लगभग) भूमि में कोयले के लिए पूर्वावलोकन करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और यतः उक्त भूमि के बारे में उक्त अधिनियम की धारा (7) की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना नहीं दी गई है ;

अतः अब ; उक्त धारा (7) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 16 नवम्बर, 1972 से आरम्भ होने वाली एक वर्ष की और कालावधि को उस कालावधि के रूप में जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उस अधिसूचना में वर्णित भूमि को या ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकार को अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दे सकती है, विनिर्दिष्ट करती है ।

अनुसूची

बोकारो खण्ड -I (सावंग विस्तारण)

पूर्वी बोकारो कीयला क्षेत्र

ड्राइंग संख्या राजस्व /6/70

तारीख 29-4-70

(पूर्वक्षेत्र के लिए अधिसूचित क्षेत्र को दर्शित करते हुए)

क्र०सं०	ग्राम	थाना	थाना संख्या	जिला	क्षेत्र	टिप्पणियां
1	सावंग	गुमिया	107	हजारीबाग		भाग
2	गोविन्द पुर	नवाडीह (बर्मों)	15	"		"
3	अरमो	"	11	"		"
कुल क्षेत्र : 295.00 एकड़ (लगभग)						
या : 119.48 हैक्टेयर (लगभग)						

सीमा वर्णन

क—ख	लाइन ग्राम अरमो में कुनार नदी से होकर गुजरती है और बिन्दु 'ख' पर मिलती है।
ख—ग	लाइन ससबेरा और सावंग ग्रामों की भागत : सामान्य सीमा के साथ होकर गुजरती है और बिन्दु 'ग' पर मिलती है।
ग—घ	लाइन ग्राम सावंग से होकर गुजरती है और बिन्दु 'घ' पर मिलती है।
घ—ङ-च-छ	लाइन सावंग और गोविन्दपुर ग्रामों से होकर गुजरती है और बिन्दु 'छ' पर मिलती है।
छ-ज-क	लाइन गोविन्दपुर और अरमो ग्रामों में कुनार नदी के बायें किनारे के साथ होकर गुजरती है और बिन्दु 'क' पर मिलती है।

[संख्या को० 3-1 (11)/70—को० 5]

ए० एस० देशपांडे, अवसर सचिव,।

